

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 905

सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

स्वदेश दर्शन योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल करना

905. श्री सुनील कुमार सोनी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या छत्तीसगढ़ की किसी पर्यटन परियोजना को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;
- (ख) क्या छत्तीसगढ़ के रायपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत चंपारण में स्थित वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक और पुष्टिमार्ग के नाम से विख्यात श्री महाप्रभुजी वल्लभाचार्य के प्राकट्य स्थल को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो क्या उक्त ऐतिहासिक स्थल को निकट भविष्य में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): जी हां, महोदय। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत वर्ष 2015-16 में 96.10 करोड़ रु. की राशि से छत्तीसगढ़ में जशपुर-कुंकुरी-मैनपट-कमलेशपुर- महेशपुर- कुर्दार-सरोधादार-गंगरैल- कौंडगांव- नथियानवागांव-जगदलपुर- चित्रकूट- तीर्थगढ़ के विकास की एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है।

(ख) से (घ): पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चम्पारण में स्थित वल्लभ संप्रदाय, जिसे पुष्टिमार्ग के नाम से भी जाना जाता है, के संस्थापक एवं 'आराध्य' श्री महाप्रभुजी वल्लभाचार्य के प्राकट्य स्थल को शामिल करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ स्थायी और युक्तसंगत पर्यटक गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में अपनी स्वदेश दर्शन योजना में सुधार किया है। स्वदेश दर्शन 2.0 के दिशा-निर्देशानुसार राज्य विभिन्न गंतव्यों की पर्यटन सम्बन्धी क्षमता का विश्लेषण करते हुए एक राज्य संदर्शी योजना (एसपीपी) तैयार करेंगे और मंत्रालय विकास के लिए राज्य में गंतव्यों का चयन करेगा।

\*\*\*\*\*